



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14—जनवरी 20, 2012 (पौष 24, 1933)

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14—JANUARY 20, 2012 (PAUSA 24, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2012

सं. 16, दिनांक 12 दिसम्बर 2011—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

के पंकज जुनेजा (डीएस-12376एन), 25 अगस्त 2010

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अगस्त 2007 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि की एमडीएस छिद्दी होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है)

के पंकज कौशिक (डीएस-12387ए), 05 सितम्बर 2010

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2010 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि की एमडीएस छिद्दी होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है)

महेश चन्द्र

मेजर जनरल एडीजीडीएस

सेना सचिव शाखा

सं. 17, दिनांक 12 दिसम्बर 2011—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती है:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि जनरल के मूल रैंक में

आई सी सं., रैंक, नाम व आर्म तथा लेफ्टि जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

(आईसी-27994) मेजर जनरल पीएस भल्ला, एवीएसएम, 64 कैंवलरी, 01 मार्च 2011

(आईसी-30507) मेजर जनरल संजीव चोपड़ा, एमएम, मैक इफ, 01 मार्च 2011

(आईसी-30683) मेजर जनरल रामेश्वर यादव, वीएसएम, राज रिफ, 01 मार्च 2011

(आईसी-30702) मेजर जनरल पी कम्पोस, वीएसएम, मेक इफ, 01 मार्च 2011

(आईसी-30137) मेजर जनरल एसपी कोछड़ एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, सिग्नल, 04 मार्च 2011

(आईसी-30085) मेजर जनरल जेडीएस रवत, एसएम, ईट कोर, 01 अप्रैल 2011

(आईसी-30462) मेजर जनरल ए एस छब्बेवाल, वाईएसएम, 67ए आर, 30 मई 2011

(आईसी-30723) मेजर जनरल अशोक सिंह, एवीएसएम, एसएम, वी एसएम, गाड्स, 30 मई 2011

(आईसी-30997) मेजर जनरल ए के बक्शी, एसएम, वीएसएम, बिहार 30 मई 2011

(आईसी-30998) मेजर जनरल सुमेर सिंह, एवीएसएम, सिख, 30 मई 2011

(आईसी-31007) मेजर जनरल अनिल मलिक, 8 कॅवलरी, 30 मई 2011

(आईसी-31052) मेजर जनरल शक्ति गुरुंग, एवीएसएम, वीएसएम, ग्रेनेडीयर्स, 01 जुलाई 2011

ब्रिगे जनरल के मूल रैंक में

(आईसी-35587) कर्नल बेअंत परमार, मराठा लाई, 20 जून 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जायेगी)

(आईसी-35684) कर्नल संदेश, मराठा लाई, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 मई 2007 से दी जायेगी)

आर बी आस्थाना
निर्देशक/एमएस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 18, दिनांक 12 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ब्रिगे से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एस एस पंवार (एमआर-04125पी), 02 फरवरी 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30 मई 2009 से दी जाती है।

सर्ज कैंप्टन से सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

विनीता तोमर (एमआर-05681एक्स), 22 फरवरी 2011 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है।

आर कालरा (एमआर-04564ए), 28 फरवरी 2011 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16 जनवरी 2011 से दी जाती है।

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल पी जे कुमार (एमआर-5592वाई), 23 अप्रैल 2011

लेफ्टि कर्नल शंभू शर्मा (एमआर-6609एन), 29 अप्रैल 2011

लेफ्टि कर्नल आर भटनागर (एमआर-05419पी), 01 जून 2011

लेफ्टि कर्नल अजय लाम्बा (एमआर-06096के), 01 जून 2011

लेफ्टि कर्नल मुकेश गुप्ता (एमआर-05421एम), 01 जून 2011

लेफ्टि कर्नल मोहनदास सी (एनटीआर-16508एन), 05 जुलाई 2011

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

अजय हांडा (एमआर-06022पी), 21 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

एच बी के नाईक (एमआर-06134पी), 21 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है।

एस पिपलानी (एमआर-05894एल), 11 अप्रैल 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे

उपमहा ससेचिसे (मास)

सेना शाखा

सं. 19, दिनांक 13 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

अल्प-सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से लेफ्टि कर्नल

अनूजा यादव (डब्ल्यूएस-00344), इंजीनियर्स

--05 मार्च 2010

प्रभात रॉस

उप निदेशक एमएस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 20, दिनांक 13 दिसम्बर 2011--थल सेना अनुदेश 37/38 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

अनिल शर्मा (डीआर-10390एफ), 31 जुलाई 2011

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

मेजर मनप्रीत सिंह राणा (डीआर-10558एच), 01 मार्च 2011

मेजर अमित खट्टक (डीआर-10500एल), 09 मार्च 2011

मेजर सुश्री मोनिता अहुजा (डीआर-10501एन), 21 मई 2011

मेजर मनु कृष्णन (डीआर-10486के), 16 दिसम्बर 2010

मेजर एस कानन (डीआर-10549एफ), 19 जनवरी 2011

महेश चन्द्र
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 21, दिनांक 13 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टि कर्नल बनाया जाता है

मेजर प्रदीप कुमार सांगवान (टीए-42311), इन्फैन्ट्री, 14 जून 2011

मेजर रवीन्द्र कुमार (टीए-42569), इन्फैन्ट्री, 06 जून 2011

मेजर राजेश कुमार आर चिकोलीकर (टीए-42314), इंजीनियर, 01 जुलाई 2011

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन एस के झा (टीए-42250), इन्फैन्ट्री, 15 जनवरी 2010

कैप्टन तरूण चौपड़ा (टीए-42579), इन्फैन्ट्री, 10 मई 2011

कैप्टन नवीन पवार (टीए-42551), इन्फैन्ट्री, 06 जनवरी 2011

अलका जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 22, दिनांक 14 दिसम्बर 2011--थल सेना अनुदेश 37/38 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

कैप्टन से मेजर (तथा समकक्ष) के पद पर

मुनीश्वर सिंह (डीआर-10624ए), 02 सितम्बर 2010

गगन दीप कोचर (डीआर-10626एल), 11 सितम्बर 2010

राहुल कुमार (डीआर-10628डब्ल्यू), 20 सितम्बर 2010

सुदर्शन वैकट सुब्बा भट्ट (डीआर-10641ए), 10 सितम्बर 2010

थिरूवेलुवन एन (डीआर-10642एच), 11 सितम्बर 2010

राजशेखर डी गेडिड (डीआर-10643एल), 21 सितम्बर 2010

पुष्पा कुमारी (डीआर-10644एन), 23 सितम्बर 2010

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति, 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर (तथा समकक्ष) के पद पर

एकलव्य टाक (डीएस-12175पी), 01 सितम्बर 2010

कोमल नारंग (डीएस-12176एक्स), 01 सितम्बर 2010

राजिन्दर कौर भुल्लर (डीएस-12177ए), 02 सितम्बर 2010

शिवानी मिश्रा (डीएस-12179एल), 03 सितम्बर 2010

विवेक कुमार सिंह (डीएस-12180ए), 04 सितम्बर 2010

कुंदन कुमार (डीएस-12184डब्ल्यू), 09 सितम्बर 2010

शेयोन मुकर्जी (डीएस-12185वाई), 09 सितम्बर 2010

अतुल गुप्ता (डीएस-12186एफ), 09 सितम्बर 2010

रजनीश गोयल (डीएस-12187के), 10 सितम्बर 2010

अविना एस बनारी (डीएस-12188एम), 10 सितम्बर 2010

विनोद पॉल के (डीएस-12192पी), 13 सितम्बर 2010

गौरव अरोड़ा (डीएस-12194ए), 16 सितम्बर 2010

ओमेश टोकस (डीएस-12195एच), 16 सितम्बर 2010

बनीता डिल्लन (डीएस-12196एल), 16 सितम्बर 2010

अजय गुप्ता (डीएस-12197एन), 16 सितम्बर 2010

मयंक खन्ना (डीएस-12198डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2010

सूरज प्रताप सिंह (डीएस-12199वाई), 17 सितम्बर 2010

चारु विसा (डीएस-12201एल), 17 सितम्बर 2010

नितिन सिंह परिहार (डीएस-12203डब्ल्यू), 19 सितम्बर 2010

नरेन्द्र कुमार (डीएस-12204वाई), 19 सितम्बर 2010

राघवेन्द्र एम एच (डीएस-12205एफ), 20 सितम्बर 2010

एस कमला वेनी (डीएस-12207एम), 20 सितम्बर 2010

हरि कृष्ण यादव (डीएस-12209एक्स), 20 सितम्बर 2010

विक्रम एस केडलाया (डीएस-12212एक्स), 21 सितम्बर 2010

मनोज पाण्डेय (डीएस-12214एच), 21 सितम्बर 2010

लाडे श्यामसुन्दर नरसिंहराव (डीएस-12215एल), 22 सितम्बर 2010

गिरीश गर्ग (डीएस-12218वाई), 26 अक्टूबर 2010
 राजेन्द्र कुमार (डीएस-12220डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2010
 गौरव दुआ (डीएस-12222एफ), 12 नवम्बर 2010
 विनोद कुमार (डीएस-12223के), 17 नवम्बर 2010
 विनीत के ध्यानी (डीएस-12224एम), 19 नवम्बर 2010

महेश चन्द्र
 मेजर जनरल
 एडीजीडीएस

स्थायी आर्मी
 मिलिट्री नर्सिंग सेवा
 स्थायी कमीशन

सं. 23, दिनांक 14 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

कैप्टन से मेजर

मेजर रजिना विश्वनाथन (एनआर-20433वाई), 06 अक्टूबर 2008 (कमीशन तिथि 06 सितम्बर 1996, 30 दिन का 12 दिसम्बर 2006 से 10 जनवरी 2007 तक असाधारण अवकाश बिना वेतनमान व भत्ते के, की अनुमति दी गई)

मेजर चंद्रानी रॉय (एनआर-20986पी), 22 अक्टूबर 2010

जे के ग्रेवाल
 मेजर जनरल
 अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

सेना शाखा

सं. 24, दिनांक 14 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एसएल)

कप्तान से मेजर

नाम, एसएल सं. व आर्म

जय प्रकाश (एसएल-04825), आईबी/आर/एसडब्ल्यू
 नेल्सन पी (एसएल-04826), आईबी/आर/एसडब्ल्यू
 गिरीश कुमार (एसएल-04827), आईबी/आर/एसडब्ल्यू
 सतेंद्र (एसएल-04828), आईबी/आर/एसडब्ल्यू

धरमवीर सिंह (एसएल-04829), आईबी/आर/एसडब्ल्यू
 एम के नारायणन (एसएल-04830), आईबी/आर/एसडब्ल्यू
 पवन कुमार (एसएल-04831), आईबी/एम/आईईएम
 ललित पांडे (एसएल-04832), एसएलआरओ
 राजेंद्र सिंह (एसएल-04833), एसएलआरओ
 ए क्रिष्ठी वेस्की (एसएल-04834), एसएलआरओ
 संजोय भट्टाचार्या (एसएल-04835), एसएलआरओ
 कृष्ण एन (एसएल-04836), ईएमई
 राधा कृष्णन नायर पी आर (एसएल-04837), ईएमई
 सुधीर प्रकाश वी के (एसएल-04838), ईएमई
 मृणाल कांति घारा (एसएल-04839), ईएमई
 रामनिवास बेनिवाल (एसएल-04840), ईएमई
 चौधरी उत्तम प्रभाकर (एसएल-04841), आईबी/आर/एसडब्ल्यू
 बहुलेयान पिल्लै आर (एसएल-04842), आईबी/एम/आईईएम
 तेजवीर (एसएल-04843), साईफर
 संजीवन चांगत (एसएल-04844), एसएलआरओ
 बी श्रीनिवासा राव (एसएल-04845), एसएलआरओ
 राजवीर सिंह (एसएल-04846), एसएलआरओ
 यैयप्पन टी (एसएल-04847), एसएलआरओ
 प्रेमन टी वी (एसएल-04848), एसएलआरओ
 अमन कालेत (एसएल-04849), एसएलआरओ
 अजय कुमार ठाकुर (एसएल-04850), एसएलआरओ
 युवराज सिंह ठाकुर (एसएल-04851), एसएलआरओ
 देशराज कौंडल (एसएल-04852), एसएलआरओ
 सेमसन डी विकटोरिया (एसएल-04853), एसएलआरओ
 संजय कुमार महापात्रा (एसएल-04854), एसएलआरओ
 राजेन्द्र कुमार (एसएल-04855), एसएलआरओ
 विजय कुमार एस (एसएल-04856), एओ
 हरजीत सिंह (एसएल-04857), एसएलआरओ
 गिरिश जोशी (एसएल-04858), एसएलआरओ
 ए कुमार (एसएल-04859), एसएलआरओ
 एम श्रीनिवास रेड्डी (एसएल-04860), एसएलआरओ
 अजय कुमार (एसएल-04861), एसएलआरओ

मूलचंद गुजर (04862), एसएलआरओ

हबीब एस (04863), एसएलआरओ

पी रेड्डेप्पा (04864), एसएलआरओ

शिव कुमार पी (04865), एसएलआरओ

मनोज कुमार पाल (04866), एसएलआरओ

देवेन्द्र सिंह नेगी (04867), एसएलआरओ

जी एन वासुदेव (04868), एसएलआरओ

महेश इंदरा (04869), एसएलआरओ

रवि नारायण पाढी (04870), एसएलआरओ

गुरचरण सिंह (04871), एसएलआरओ

जितेन्द्र कुमार देवांगन (04872), एसएलआरओ

बीबे कानन्दा पटनायक (04873), एसएलआरओ

मशुर विश्वकर्मा (04874), एसएलआरओ

विनोद कुमार सांगवान (04875), एसएलआरओ

प्रमोद सिंह अत्री (04876), एसएलआरओ

अजय ध्यानी (04878), एसएलआरओ

श्रीनिवासन के एन (04879), एसएलआरओ

सलविन्दर सिंह (04881), आईईई/एम/आईईएम

सुशील कुमार (04882), एसएलआरओ

सुधाकरन पी आर (04883), आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

एस श्रीनिवासा राव (04884), एसएलआरओ

विजय कुमारन के पी (04885), एसएलआरओ

एम यतीश्वर (04886), एसएलआरओ

खेमचन्द (04887), आईओएबी

एम विबन सिंहा (04888), एसएलआरओ

कमीरकर मौला दस्तगीर (04889), एसएलआरओ

--02 जुलाई 2011

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एसएससीडब्ल्यू)

लेफ्टि से कप्तान

चिन्तादा हरीश कुमार (एसएस-43780), इंजीनियर्स, 21 सितम्बर 2007, एसएससी-31 (टी), 22 अक्टूबर 2007, 22 अक्टूबर 2009

रोहित भारगवा (एसएस-43946), ईएमई, 23 मार्च 2008, एसएससी-32 (टी), 23 अप्रैल 2008, 23 अप्रैल 2010

शालिनी सिंह (एसएस-43947), ईएमई, 23 मार्च 2008, एसएससीडब्ल्यू-03 (टी), 23 अप्रैल 2008, 23 अप्रैल 2010

प्रभात रॉस
उप निदेशक
एमएस-8सी

सं. 25, दिनांक 15 दिसम्बर 2011--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क (एसडी) दीना नाथ शर्मा (जेसी-348230के), 15 सितम्बर 2009

सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुरेश बाबू शर्मा (जेसी-348251ए), 16 सितम्बर 2009

सूबेदार क्लर्क (एसडी) लक्ष्मी नारायण दूबे (जेसी-348669एच), 04 मार्च 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) ओम प्रकाश (जेसी-348679एम), 09 मार्च 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) रमेश कुमार शर्मा (जेसी-348681के), 05 अप्रैल 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) लेहना सिंह (जेसी-348695के), 20 अप्रैल 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) विरेंद्र सिंह (जेसी-348677एफ), 08 जून 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) मोहनन पी (जेसी-348216एक्स), 12 अप्रैल 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) तारा चंद (जेसी-348535के), 07 जून 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) श्री भगवान (जेसी-348630डब्ल्यू), 07 जुलाई 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) श्याम नारायण (जेसी-348639एल), 08 जुलाई 2011

सूबेदार मेजर (एसकेटी) के रैंक में

सूबेदार (एसकेटी) राजपाल सिंह (जेसी-348603एम), 01 मार्च 2011

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) कौराती बलिराम आर (जेसी-350318एम), 09 फरवरी 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) शालीग्राम यादव (जेसी-350324ए),
02 मई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) परेश चंद्र मन्ना (जेसी-350325एच),
07 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) राम अवतार (जेसी-350347एफ),
15 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) शाजी पी जी (जेसी-350349एम),
02 मई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अग्रहरापु वेंकटा राव (जेसी-
350350एफ), 21 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) बोडी पल्ली पोलीनाईदू (जेसी-
350359डब्ल्यू), 21 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) रामुद्री वेंकटराव (जेसी-350360एल),
21 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुरेश चंद्र यादव (जेसी-350358एन),
04 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) हंस कुमार (जेसी-350389एन),
21 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अमर सिंह शेखावत (जेसी-
350400एफ), 21 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) रणबीर सिंह (जेसी-350401के),
21 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) गजेंद्र सिंह (जेसी-350374एल),
30 जून 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) मदन लाल (जेसी-350390एच),
04 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) नंदलाल कौशलिया (जेसी-350375एन),
01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) हरबंस सिंह (जेसी-350402एम),
02 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) रवींद्र कुमार सैनी (जेसी-350404एक्स),
04 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) धनंजय बोरो (जेसी-350405ए),
02 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) रमेश चंद्र (जेसी-350406एच),
01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) राम गोपाल (जेसी-350408एन),
02 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जय प्रकाश राय (जेसी-350424एल),
01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) नाक्का मरकंडा राव (जेसी-
350426डब्ल्यू), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) लंकावलासा अनंता राव (जेसी-
350427वाई), 01 जुलाई 2011

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) मुन्ना लाल (जेसी-350454एच), 27 सितम्बर
2011

नायब सूबेदार (जीडी) सदानंद सखाराम सावंत (जेसी-350641एफ),
08 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार (जीडी) महमूद (जेसी-350643एम), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार (जीडी) बिजय बहादुर सिंह (जेसी-350671वाई),
01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार (जीडी) सुदर्शनपाल सिंह (जेसी-350707एम),
18 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) देवराज सिंह (जेसी-350706के), 26 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) शिंगारा सिंह (जेसी-350708पी), 17 दिसम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) अमरीक सिंह (जेसी-350683एन), 01 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) गरुड शिवाजी विष्णु (जेसी-350784एफ),
07 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) राजबीर (जेसी-350741एम), 02 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) कमलजीत सिंह (जेसी-350743एक्स),
19 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) हरनेक सिंह (जेसी-350765डब्ल्यू), 01 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) खिलाप सिंह (जेसी-350763एल), 05 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) नरेंद्र सिंह (जेसी-350843एच), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) रणजीत सिंह (जेसी-350720डब्ल्यू), 01 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद शुयेद (जेसी-350722एफ), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) सतनाम सिंह (जेसी-350797वाई), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) लक्ष्मण सिंह (जेसी-350769एम), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) बबन बामाजी जानकर (जेसी-350770एफ),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील संजय दाजी (जेसी-350724एम),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील श्रीकांत शिवाजी (जेसी-350799के),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मेजर सिंह (जेसी-350725पी), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) एस जोतीलिंगम (जेसी-350773पी), 02 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) रणबीर (जेसी-350774एक्स), 11 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) सिकंदर सिंह (जेसी-350723के), 02 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) फिदा हुसैन (जेसी-350771के), 05 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) रावैल सिंह (जेसी-350886एक्स), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) गुरनाम सिंह (जेसी-350772एम), 03 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) मोरे प्रभाकर परशु राम (जेसी-350887ए),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) रामनाथ माहोर (जेसी-350851एफ), 03 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक सिंह (जेसी-350777एल), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) सुरिंदर पाल सिंह (जेसी-350778एन),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जसपाल सिंह (जेसी-350780एल), 11 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) बिर्दे प्रसाद (जेसी-350813एल), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद हबीब (जेसी-350816वाई),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) केवल सिंह (जेसी-350817एफ), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) सलामत उल्ला (जेसी-350819एम), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) बाबूराव सोपानराव गवली (जेसी-350820एफ),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) कुलदीप सिंह (जेसी-350821के), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) साहिब सिंह (जेसी-350822एम), 01 फरवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) कदम कुमार नामदेव (जेसी-350825ए),
01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) अनिल कुमार (जेसी-350826एच), 02 मार्च
2011

नायब सूबेदार (जीडी) स्वर्ण सिंह (जेसी-350824एक्स), 01 मार्च
2011

नायब सूबेदार (जीडी) लाला सिंह (जेसी-350830एल), 01 अप्रैल
2011

नायब सूबेदार (जीडी) गणपत प्रभात मोरे (जेसी-350866के),
19 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) हरी शंकर सिंह (जेसी-350891एच), 11 अप्रैल
2011

नायब सूबेदार (जीडी) अनंत बहादुर सिंह (जेसी-350868पी),
01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) रामपाल सिंह (जेसी-350895वाई), 01 अप्रैल
2011

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद ज़फर (जेसी-350869एक्स),
01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मुबारक अंसारी (जेसी-350870एम), 01 अप्रैल
2011

नायब सूबेदार (जीडी) मनजीत सिंह (जेसी-350872एक्स), 01 अप्रैल
2011

नायब सूबेदार (जीडी) शिंगारा सुरेश दामोदर राव (जेसी-350873ए),
18 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) अकबर अली खान (जेसी-350896एफ),
05 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) अय्यूब खान (जेसी-350898एम), 01 मई
2011

नायब सूबेदार (जीडी) येरूणकर नंद कुमार आत्माराम (जेसी-
350903एम), 02 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मुहम्मद मोबीन (जेसी-350904पी), 03 मई
2011

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील चंद्रकांत मारुती (जेसी-350877डब्ल्यू),
02 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) कमलेश कुमार (जेसी-350905एक्स), 02 मई
2011

नायब सूबेदार (जीडी) अली खान (जेसी-350906ए), 01 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) श्री चंद यादव (जेसी-350879एफ), 04 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) नाईगडे सुरेश बाजीराव (जेसी-350880डब्ल्यू), 04 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मेहर दीन (जेसी-350881वाई), 08 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) डानियर (जेसी-350882एफ), 01 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) गोबिंद मिश्रा (जेसी-350908एल), 01 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) बलकार सिंह (जेसी-350909एन), 23 मई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) श्री भगवान दीन शर्मा (जेसी-350884एम), 06 जुलाई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) गुरपाल सिंह (जेसी-350911एल), 11 जुलाई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जसमेल सिंह (जेसी-350918पी), 06 जुलाई 2011

नायब सूबेदार (जीडी) कुलविंदर सिंह (जेसी-350928वाई), 02 जुलाई 2011

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) काले दत्तात्रय विठल (जेसी-349724ए), 04 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) अनिल कुमार (जेसी-349730एन), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) पाटील अशोक कृष्णा राव (जेसी-349731डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2011

सूबेदार (आरटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) अनिल कुमार शुक्ला (जेसी-348662वाई), 09 मई 2011

अलका जोशी
अवर सचिव

थलसेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 26, दिनांक 15 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

जाधव साहेब राव अन्ना (सं. 14614412ए अब जेसी-766413डब्ल्यू), 20 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

साठे नावनाथ एकनाथ (सं. 14614406एच अब जेसी-766405एक्स), 30 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

गौतम कुमार मंडल (सं. 14614384वाई अब जेसी-766416के), 01 सितम्बर 2011

प्रदयोत कुमार बेरा (सं. 14613167डब्ल्यू अब जेसी-766229एल), 27 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

बी बी साहेव दामु (सं. 14614371एफ अब जेसी-766300एन), 13 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

भीवारे सुभाष विठ्ठल (सं. 14614372के अब जेसी-766301डब्ल्यू), 27 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

खटके बाला साहेब भीकोबा (सं. 14614345ए अब जेसी-766294एल), 01 अगस्त 2011

अधव बालु (सं. 14614376ए अब जेसी-766305एम), 08 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

दवंग सरदार श्रीपती (सं. 14614347एल अब जेसी-766304के), 27 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

जाधव अन्नसो पांडुरंग (सं. 14614349डब्ल्यू अब जेसी-766302वाई), 28 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

विभाकर तिवारी (सं. 14614416डब्ल्यू अब जेसी-766414वाई), 24 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

सदोलकर लक्ष्मण पुंडलिक (सं. 14614344एक्स अब जेसी-766411एल), 26 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

उदीत कुमार (सं. 14614554एक्स अब जेसी-766420एम), 21 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

पाखरे मधुकर नाथू (सं. 14614375एक्स अब जेसी-766423ए), 24 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

सतीश चंदर (सं. 14614249एल अब जेसी-766407एच), 19 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

साजन जी (सं. 14614308एम अब जेसी-766409एन), 19 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

संतोश जी (सं. 14614294एक्स अब जेसी-766410एच), 19 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

दीनकर चंगदेव मुलिक (सं. 14614407पी अब जेसी-766406ए), 17 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

तपन कुमार साहू (सं. 14614424पी अब जेसी-766419एक्स), 19 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

असीत बबन मंडल (सं. 14614459एल अब जेसी-766417एम), 28 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

अशोक कुमार (सं. 14613686वाई अब जेसी-766239पी),
25 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हरे कुमार बी टी (सं. 14614305वाई अब जेसी-766408एल),
17 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

महेन्द्रा सिंह भदोरिया (सं. 14613985एक्स अब जेसी-766303एफ),
29 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

श्यामपदा मयति (सं. 14600135पी अब जेसी-766401एफ),
30 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

फावर नामदेव सोपन (सं. 14614390एम अब जेसी-766422एक्स),
23 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

किशन सिंह (सं. 14602668डब्ल्यू अब जेसी-766220डब्ल्यू),
15 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

सीता राम (सं. 14605450पी अब जेसी-766279डब्ल्यू), 01 सितम्बर
2011

लक्ष्मी नरायण (सं. 14605175ए अब जेसी-766278एन), 01 सितम्बर
2011

अवधेश बहादुर सिंह (सं. 14602690एफ अब जेसी-766273पी),
02 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

सुशील कुमार (सं. 14592539ए अब जेसी-766266वाई), 08 सितम्बर
2011/01 सितम्बर 2011 *

रंजन कुमार सिंह (सं. 14605167एफ अब जेसी-766277एल),
01 सितम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

नरेन्द्र सिंह नेगी (सं. 14596746डब्ल्यू अब जेसी-766312एच),
01 सितम्बर 2011

सत्यपाल सिंह (सं. 14597971एल अब जेसी-766428वाई),
21 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

मीर सैयेद अली (सं. 14597997ए अब जेसी-766430डब्ल्यू),
20 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

पुरण चरन बरीक (सं. 14597955एन अब जेसी-766426एन),
23 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

जय सिंह (सं. 14589740ए अब जेसी-766285के), 01 सितम्बर 2011

बंशी लाल कथरे (सं. 14589173एच अब जेसी-766287पी),
01 सितम्बर 2011

अमर नाथ (सं. 14589628एन अब जेसी-766283वाई), 01 सितम्बर
2011

सीबा प्रसाद रोडत (सं. 14590234एफ अब जेसी-766288एक्स),
01 सितम्बर 2011

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (आई व पी) के रैंक में

रकेश कुमार (सं. 14633318एल अब जेसी-765212एल), 01 सितम्बर 2011

राजेश सिंह (सं. 14627154के अब जेसी-766141एफ), 20 जून
2011/10 अप्रैल 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्युनिकेशन के रैंक में

राम बचन ओझा (सं. 14617758पी अब जेसी-764968वाई), 06 दिसम्बर
2010/01 मार्च 2010 *

रकेश कुमार (सं. 14627666डब्ल्यू अब जेसी-765545एक्स), 07 जुलाई
2011/01 दिसम्बर 2010 *

दीपक सिंह रावत (सं. 14625083पी अब जेसी-766376एन),
19 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट्रिकल के रैंक में

बिजू के (सं. 14618813एम अब जेसी-765325एन), 06 दिसम्बर
2010/01 सितम्बर 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

प्रदीप सिंह (सं. 14619690एक्स अब जेसी-765732एल), 05 जुलाई
2011/01 अक्टूबर 2010 *

शीवजनम कुशवाहा (सं. 14620878वाई अब जेसी-765671के),
01 नवम्बर 2010

नंद किशोर सिंह (सं. 14622463एच अब जेसी-766140वाई), 13 जून
2011/01 मई 2011 *

जगदीप कुमार (सं. 14623004 डब्ल्यू अब जेसी-766146ए), 07 जून
2011/01 मई 2011 *

ब्रजेश कुमार मौर्य (सं. 14623025एम अब जेसी-766147एच),
01 जून 2011/01 मई 2011 *

संजय कुमार (सं. 14623560एम अब जेसी-766149एच), 20 जून
2011/01 मई 2011 *

बाल सुब्बा रेड्डी मार्क (सं. 14623407के अब जेसी-766150एच),
18 जून 2011/01 मई 2011 *

जैथु सिंह खिरिया (सं. 14623738एक्स अब जेसी-766161एन),
18 जून 2011/01 मई 2011 *

एम अब्दुल जफर (सं. 14623757एच अब जेसी-766164एच),
01 जून 2011/01 मई 2011 *

सिध नाथ सिंह (सं. 14623766के अब जेसी-766170डब्ल्यू),
01 अगस्त 2011

हरविन्द सिंह वर्मा (सं. 14623806ए अब जेसी-766171वाई),
01 अगस्त 2011

विजय पाल (सं. 14623828वाई अब जेसी-766172एफ), 01 अगस्त
2011

सुरजीत मैति (सं. 14623844डब्ल्यू अब जेसी-766173के),
01 अगस्त 2011

सुरजीत साहु (सं. 14623843एन अब जेसी-766178एच), 01 अगस्त
2011

मनोज कुमार (सं. 14619307एन अब जेसी-765180एन), 19 जनवरी
2011/01 अगस्त 2010 *

दीपक सिंह रावत (सं. 14625083पी अब जेसी-766376एन),
19 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

गंगा सिंह (सं. 14619691ए अब जेसी-765373एन), 28 जून 2011/
01 अक्टूबर 2010 *

टेक चंद राणा (सं. 14621288एम अब जेसी-765688एक्स),
19 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

गदाधर भुयान (सं. 14621455एक्स अब जेसी-765773ए), 14 अगस्त
2011/01 जनवरी 2011 *

एस एस बहादुर (सं. 14619017डब्ल्यू अब जेसी-766180ए),
02 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

मुंजी अप्पल नायडु (सं. 14618961एक्स अब जेसी-766179एल),
01 सितम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में

अभिजीत आचार्य (सं. 14626456के अब जेसी-766143एम),
01 जुलाई 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

एस एम डी वसिउद्दीन (सं. 14617137डब्ल्यू अब जेसी-766168वाई),
27 जून 2011/01 जून 2011 *

दुंडप्पा गस्ती (सं. 14617471एक्स अब जेसी-766174एम),
11 जुलाई 2011/01 जून 2011 *

जयेन्द्रा कुमार (सं. 14617435एम अब जेसी-766175एम),
01 जुलाई 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

अनसारी महम्मद (सं. 14628778एच अब जेसी-766176एक्स),
01 अगस्त 2011

सत्येन्द्रा कुमार (सं. 14628957एच अब जेसी-766177डब्ल्यू),
02 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

कृष्णा दास आर (सं. 14628792पी अब जेसी-766169एफ),
04 जून 2011/01 जून 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई) के रैंक में

श्री राम (सं. 14621399के अब जेसी-766323पी), 25 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

काली प्रसाद शर्मा (सं. 14621452के अब जेसी-766324एक्स),
23 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

जसबीर सिंह (सं. 14624396एफ अब जेसी-766326एच), 27 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

मोर नितीन नाना (सं. 14624400वाई अब जेसी-766327एल),
24 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

जी कुमार (सं. 14624503एक्स अब जेसी-766330एल), 24 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

बीजा सिंह (सं. 14624956एच अब जेसी-766332डब्ल्यू), 26 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

रमेल कृष्ण (सं. 14625663के अब जेसी-766333वाई), 26 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

जीतेन्द्रा सिंह (सं. 14624514के अब जेसी-766331एन), 27 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

अरुनेन्द्र सिंह चौहान (सं. 14621207एफ अब जेसी-766321के),
19 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

नन्द किशोर कश्मीरा
अवर सचिव

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 27, दिनांक 15 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
एम एन एस अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त
होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या एवं सेवा निवृत्त की तारीख

ब्रिगे विपिन यादव (एनआर-15619वाई), 31 अक्टूबर 2010

ब्रिगे शोभा सूद (एनआर-15843एल), 31 अक्टूबर 2010

ब्रिगे एम एफ फेबियोला (एनआर-15322एक्स), 31 जनवरी 2011

ब्रिगे डी अरूजा (एनआर-15331वाई), 31 मार्च 2011

ब्रिगे जी चन्द्रा (एनआर-15707पी), 31 मई 2011

कर्नल मार्था पी दास (एनआर-16214ए), 30 जून 2010
 ले कर्नल (एस) गीता ओबराय (एनआर-16835वाई), 31 अगस्त 2010
 ले कर्नल (एस) वी के शर्मा (एनआर-16300एल), 31 अक्टूबर 2010
 ले कर्नल (एस) एस पी प्रधान (एनआर-15799एम), 30 नवम्बर 2010
 ले कर्नल (एस) जगदीश कौर (एनआर-17228एल), 30 नवम्बर 2010
 ले कर्नल (एस) एस जी पिल्लै (एनआर-16335एफ), 31 मई 2011
 ले कर्नल (एस) मल्लिका (एनआर-17374एम), 31 मई 2011
 ले कर्नल (एस) सुसम्मा साहु (एनआर-17232पी), 31 जनवरी 2011
 ले कर्नल (एस) रोस मैरी (एनआर-16423एक्स), 31 जनवरी 2011
 ले कर्नल (एस) के पी सारम्मा (एनआर-16453पी), 31 मार्च 2011
 ले कर्नल (एस) सरस्वती वी के (एनआर-17079के), 31 मार्च 2011
 ले कर्नल (एस) प्रेमलता भोला (एनआर-15918एक्स), 30 अप्रैल 2011

जे के ग्रेवाल
 मेजर जनरल
 अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

थल सेना शाखा

सं. 28, दिनांक 16 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता की आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (टीएस) ए के कालिया (एमआर-03405डब्ल्यू), पीसी, 31 जुलाई 2007

कर्नल (टीएस) एस के जयपुरियार (एमआर-03432ए), पीसी, 30 जून 2007

कर्नल (टीएस) ए के श्रीवास्तव (एमआर-04466ए), पीसी, 30 जून 2007

यश पांडे
 ब्रिगे
 उपमहानिदेशक (मासं)

सेना सचिव शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 29, दिनांक 16 दिसम्बर 2011--भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2011 के राजपत्र में नियमित सेना, स्थायी कमीशन, लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक शीर्षक के अंतर्गत यथा परिवर्तन किया जाता है :--

लेफ्टिनेंट जनरल के
 मूल रैंक की प्रभावी
 तिथि

के लिए :-- मेजर जनरल, संजिव चाचरा, 01.10.2010
 एवीएसएम, वीएसएम,
 (आईसी-30389), राजपूत,

पढ़ें :-- मेजर जनरल, संजिव चाचरा, 05.10.2010
 एवीएसएम, वीएसएम,
 (आईसी-30389), राजपूत,

आर बी अस्थाना
 निदेशक/एमएस(एक्स)

सेना शाखा

कप्तान से मेजर

सं. 30, दिनांक 16 दिसम्बर 2011--भारत के राजपत्र भाग I अनुभाग 4 में दिनांक 15 अक्टूबर 2011 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-66275 कचारे हर्षपाल वासुदेव, इफैंट्री

पढ़ें : ----रिक्त----

प्रभात रॉस
 उप निदेशक
 एमएस-इसी

सेना शाखा

सं. 31, दिनांक 19 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले के पद पर दिनांक 07 जून 1997 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 01 अगस्त, 1998 को 100 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

के लिए	- सचिन अन्नाराव निम्बालकर	(आईसी-57021एफ), इन्फैन्ट्री
पढ़ें	- सचिन अन्नाराव निम्बालकर	(आईसी-57021पी), इन्फैन्ट्री

राहुल सांगवान
ले कर्नल
ए एम एस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th January 2012

ARMY BRANCH

No. 16, dated 12th December 2011—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

(Antedate of Commission)

(DS-12376N) Capt Pankaj Juneja, 25 Aug 2010

(With seniority for pay and promotion from 25 Aug 2007, includes 36 months antedate, for being in possession of MDS degree from College of Dental Sciences, Davangere, RGUHS, Bangalore, which will not count for gratuity)

(DS-12387A) Capt Pankaj Kaushik, 05 Sep 2010

(With seniority for pay and promotion from 05 Sep 2007, includes 36 months antedate, for being in possession of MDS degree from Pacific Dental College Udaipur, Rajasthan, which will not count for gratuity)

MAHESH CHANDER

Maj Genl
Addl DGDS

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 17, dated 12th December 2011—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Subs Lt Gen

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Rank

(IC-27994) Maj Gen PS Bhalla, AVSM, 64 CAV, 01 Mar 2011

(IC-30507) Maj Gen Sanjeev Chopra, SM, Mech Inf, 01 Mar 2011

(IC-30683) Maj Gen Rameshwar Yadav, VSM, Raj Rif, 01 Mar 2011

(IC-30702) Maj Gen P Campose, VSM, Mech Inf, 01 Mar 2011

(IC-30137) Maj Gen SP Kochhar, AVSM, SM, VSM, Sigs, 04 Mar 2011

(IC-30085) Maj Gen JDS Rawat, SM, Int, , 01 Apr 2011

(IC-30462) Maj Gen AS Chabbewal, YSM, 67 AR, 30 May 2011

(IC-30723) Maj Gen Ashok Singh, AVSM, SM VSM, Guards, 30 May 2011

(IC-30997) Maj Gen AK Bakshi, SM, VSM, Bihar, 30 May 2011

(IC-30998) Maj Gen Sumer Singh, AVSM, Sikh, 30 May 2011

(IC-31007) Maj Gen Anil Malik, 8 CAV, 30 May 2011

(IC-31052) Maj Gen Shakti Gurung, AVSM, VSM, Gren, 01 Jul 2011

To be Sub Brig

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Brig

(IC-35587) Col Beant Parmar, Maratha LI, 20 Jun 2011 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension

(IC-35684) Col Sandes, Maratha Li, 08 Jan 2010 with seniority from 25 May 2007 without effect on pay and pension

RB ASTHANA
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 18, dated 12th December 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig to be Maj Gen (& equivalent)

SS Panwar (MR-04125P), 02 Feb 2010, with notional seniority without effect on pay & pension from 30 May 2009

Surg Capt (& equivalent) to be Surg Cmde (& equivalent)

(Mrs) Vinita Tomar (MR-05681X), 22 Feb 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2011

R Kalra, VSM (MR-04564A), 28 Feb 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 16 Jan 2011

Lt Col to Col (Time Scale)

(MR-05592Y) Lt Col PJ Kumar, 23 Apr 2011

(MR-06609N) Lt Col Shambhu Sharma, 29 Apr 2011

(MR-05419P) Lt Col R Bhatnagar, 01 Jun 2011

(MR-06096K) Lt Col Ajay Lamba, 01 Jun 2011

(MR-05421M) Lt Col Mukesh Gupta, 01 Jun 2011

(NTR-16508N) Lt Col Mohandas C, 05 Jul 2011

Wg Cdr to be Gp Capt (& equivalent)

Ajay Handa (MR-06022P), 21 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Sep 2010

H B K Nb (MR-06134P), 21 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2011

S Piplani (MR-05894L), 11 Apr 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2011

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 19, dated 13th December 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col

(WS-00344) Anuja Yadav, Engrs

—05 Mar 2010

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS 8C

ARMY BRANCH

No. 20, dated 13th December 2011—The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Col (TS) (& equivalent)

(DR-10390F) Anil Sharma, 31 Jul 2011

Maj to be Lt Col (& equivalent)

(DR-10558H) Maj Manpreet Singh Rana, 01 Mar 2011

(DR-10500L) Maj Amit Khattak, 09 Mar 2011

(DR-10501N) Maj (Miss) Monita Ahuja, 21 May 2011

(DR-10486K) Maj Manu Krishnan, 16 Dec 2010

(DR-10549F) Maj S Kannan, 19 Jan 2011

MAHESH CHANDER
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 21, dated 13th December 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj Pradeep Kumar Sangwan (TA-42311), Infantry, 14 Jun 2011

Maj Ravinder Kumar (TA-42569), Infantry, 06 Jun 2011

Maj Rajesh Kumar R Chicholikar (TA-42314), Engr TA, 01 Jul 2011

To be Maj

Capt S K Jha (TA-42250), Engr TA, 15 Jan 2010

Capt Tarun Chopra (TA-42579), Engr TA, 10 May 2011

Capt Naveen Pawar (TA-42551), Infantry, 06 Jan 2011

ALKA JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 22, dated 14th December 2011—The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj (& equivalent)

(DR-10624A) Munishwar Singh, 02 Sep 2010

(DR-10626L) Gagan Deep Kochar, 11 Sep 2010

(DR-10628W) Rahul Kumar, 20 Sep 2010

(DR-10641A) Sudarshan Venkata Subba Bhatt, 10 Sep 2010

(DR-10642H) Thiruvalluvan N, 11 Sep 2010

(DR-10643L) Rajasekhar D Gaded, 21 Sep 2010

(DR-10644N) Pushpa Kumari, 23 Sep 2010

The President is pleased to make the following promotions under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Maj (& equivalent)

(DS-12175P) Eklavya Tak 01 Sep 2010

(DS-12176X) Komal Narang, 01 Sep 2010

(DS-12177A) Rajinder Kaur Bhullar, 02 Sep 2010

(DS-12179L) Shivani Mishra, 03 Sep 2010

(DS-12180A) Vivek Kumar Singh, 04 Sep 2010

(DS-12184W) Kundan Kumar, 09 Sep 2010

(DS-12185Y) Shayon Mukerjee, 09 Sep 2010

(DS-12186F) Atul Gupta, 09 Sep 2010

(DS-12187K) Rajneesh Goyal, 10 Sep 2010

(DS-12188M) Avina S Banari, 10 Sep 2010

(DS-12192P) Vinod Paul K, 13 Sep 2010

(DS-12194A) Gaurav Arora, 16 Sep 2010

(DS-12195H) Omesh Tokas, 16 Sep 2010

(DS-12196L) Banita Dhillon, 16 Sep 2010

(DS-12197N) Ajay Gupta, 16 Sep 2010

(DS-12198W) Mayank Khanna, 17 Sep 2010

(DS-12199Y) Suraj Pratap Singh, 17 Sep 2010

(DS-12201L) Charu Visa, 17 Sep 2010

(DS-12203W) Nitin Singh Parihar, 19 Sep 2010

(DS-12204Y) Narendra Kumar, 19 Sep 2010

(DS-12205F) Raghavendra MH, 20 Sep 2010

(DS-12207M) S Kamala Veni, 20 Sep 2010

(DS-12209X) Hari Krishan Yadav, 20 Sep 2010

(DS-12212X) Vikram S Kedlaya, 21 Sep 2010

(DS-12214H) Manoj Pandey, 21 Sep 2010

(DS-12215L) Lade Shyamsunder Narsingrao, 22 Sep 2010

(DS-12218Y) Girish Garg, 26 Oct 2010

(DS-12220W) Rajendra Kumar, 04 Nov 2010

(DS-12222F) Gaurav Dua, 12 Nov 2010

(DS-12223K) Vinod Kumar, 17 Nov 2010

(DS-12224M) Vineet K Dhyani, 19 Nov 2010

MAHESH CHANDER

Maj Gen

Addl DGDS

No. 23, dated 14th December 2011—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS

Officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

Capt to Maj

Maj Regina Vishwanathan (NR-20433Y), 06 October 2008

(DOC : 06 Sep 1996, 30 Days of EOL from 12 Dec 2006 to 10 Jan 2007 granted without Pay & Allowances)

Maj Chandrani Roy (NR-20986P), 22 October 2010

J K GREWAL

Maj Gen

Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 24, dated 14th December 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

SL No, Name, Arm

(SL-04825) Jai Prakash, AEE B/R/ASW

(SL-04826) Nelson P, AEE B/R/ASW

(SL-04827) Gireesh Kumar, AEE B/R/ASW

(SL-04828) Satendra, AEE B/R/ASW

(SL-04829) Dharmvir Singh, AEE B/R/ASW

(SL-04830) MK Narayanan, AEE B/R/ASW

(SL-04831) Pawan Kumar, AEE E/M/TEM

(SL-04832) Lalit Pandey, RO

(SL-04833) Rajender Singh, RO

(SL-04834) A Chirsty Besky, RO

(SL-04835) Sanjoy Bhattacharyya, RO

(SL-04836) Krishnan N, EMAE

(SL-04837) Radha Krishnan Nair PR, EMAE

(SL-04838) Sudhir Prakash VK, EMAE

(SL-04839) Mrinal Kanti Ghara, EMAE

(SL-04840) Ramniwas Beniwal, EMAE

(SL-04841) Choudhari Uttam Prabhakar, AEE B/R/ASW

(SL-04842) Bahuleyan Pillai R, AEE E/M/TEM

(SL-04843) Tejvir, Cipher

(SL-04844) Sanjeevan Changat, RO

(SL-04845) B Srinivasa Rao, RO

(SL-04846) Rajveer Singh, RO
 (SL-04847) Iyyappan T, RO
 (SL-04848) Preman TV, RO
 (SL-04849) Aman Kalet, RO
 (SL-04850) Ajay Kumar Thakur, RO
 (SL-04851) Yuvraj Singh Thakur, RO
 (SL-04852) Deshraj Koundal, RO
 (SL-04853) Samson D Victoria, RO
 (SL-04854) Sanjay Kumar Mahapatra, RO
 (SL-04855) Rajender Kumar, RO
 (SL-04856) Vijaya Kumar S, AO
 (SL-04857) Harjit Singh, RO
 (SL-04858) Girish Joshi, RO
 (SL-04859) A Kumar, RO
 (SL-04860) M Srinivasa Reddi, RO
 (SL-04861) Ajay Kumar, RO
 (SL-04862) Moolchand Gujar, RO
 (SL-04863) Habeeb S, RO
 (SL-04864) P Reddeppa, RO
 (SL-04865) Shiva Kumar P, RO
 (SL-04866) Manoj Kumar Pal, RO
 (SL-04867) Devendra Singh Negi, RO
 (SL-04868) GN Wasudev, RO
 (SL-04869) Mahesh Inder, RO
 (SL-04870) Rabi Narayan Padhi, RO
 (SL-04871) Gurcharan Singh, RO
 (SL-04872) Jitendra Kumar Dewangan, RO
 (SL-04873) Bibe Kananada Pattnayak, RO
 (SL-04874) Mashur Biswakarma, RO
 (SL-04875) Vinod Kumar Sangwan, RO
 (SL-04876) Pramod Singh Atri, RO
 (SL-04878) Ajay Dhyani, RO
 (SL-04879) Sreenivasan KN, RO
 (SL-04881) Salwinder Singh, AEE E/M/IEM
 (SL-04882) Sushil Kumar, RO
 (SL-04883) Sudhakaran PR, AEE B/R/ASW
 (SL-04884) S Srinivasa Rao, RO

(SL-04885) Vijaya Kumaran KP, RO
 (SL-04886) M Yattheswar, RO
 (SL-04887) Khemchand, IOAB
 (SL-04888) M Jibon Singha, RO
 (SL-04889) Kamirkar Maula Dastagir, RO

—02 Jul 2011—

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

SS No, Name, Arm, Date of Seniority, Course, Adjusted Date of Seniority for Promotion and Date of grant of subs rank of Capt

(SS-43780) Chintada Hareesh Kumar, Engrs, 22 Sep 07, SSC-31 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

(SS-43946) Rohit Bhargava, EME, 23 Mar 08, SSC-32 (T), 23 Apr 08, 23 Apr 10

(SS-43947) Shalini Singh, EME, 23 Mar 08, SSCW-03 (T), 23 Apr 08, 23 Apr 10

PRABHAT ROSS

Dy Dir

MS-8C

ARMY BRANCH

No. 25, dated 15th December 2011—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

REGULAR ARMY CORPS OF ENGINEER BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Sub Maj (Clk SD)

Sub (Clk SD) Dina Nath Sharma (JC-348230K), 15 Sep 2009

Sub (Clk SD) Suresh Babu Sharma (JC-348251A), 16 Sep 2009

Sub (Clk SD) Laxmi Narayan Dubey (JC-348669H), 04 Mar 2011

Sub (Clk SD) Om Prakash (JC-348679M), 09 Mar 2011

Sub (Clk SD) Ramesh Kumar Sharma (JC-348681K), 05 Apr 2011

Sub (Clk SD) Lehna Singh (JC-348695K), 20 Apr 2011

Sub (Clk SD) Virender Singh (JC-348677F), 08 Jun 2011

Sub (Clk SD) Mohanan P (JC-348216X), 12 Apr 2011

Sub (Clk SD) Tara Chand (JC-348535K), 07 Jun 2011

Sub (Clk SD) Shri Bhagwan (JC-348630W), 07 Jul 2011

Sub (Clk SD) Shyam Narayan (JC-348639L), 08 Jul 2011

To be Sub Maj (SKT)

Sub (SKT) Rajpal Singh (JC-348603M), 01 Mar 2011

To be Sub (Clk SD)

Nb Sub (Clk SD) Kaurati Baliram R (JC-350318M),
09 Feb 2011

Nb Sub (Clk SD) Shaligram Yadav (JC-350324A),
02 May 2011

Nb Sub (Clk SD) Paresh Chandra Manna (JC-350325H),
07 Apr 2011

Nb Sub (Clk SD) Ram Avtar (JC-350347F), 15 Apr 2011

Nb Sub (Clk SD) Shaji P G (JC-350349M), 02 May
2011

Nb Sub (Clk SD) Agraharapu Venkata Rao (JC-350350F),
21 Jun 2011

Nb Sub (Clk SD) Bodde Palli Polinaidu (JC-350359W),
21 Jun 2011

Nb Sub (Clk SD) Ramudri Venkat Rao (JC-350360L),
21 Jun 2011

Nb Sub (Clk SD) Suresh Chandra Yadav (JC-350358N),
04 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Hans Kumar (JC-350389N), 21 Jun
2011

Nb Sub (Clk SD) Amar Singh Shekavat (JC-350400F),
21 Jun 2011

Nb Sub (Clk SD) Ranbir Singh (JC-350401K), 21 Jun
2011

Nb Sub (Clk SD) Gajendra Singh (JC-350374L), 30 Jun
2011

Nb Sub (Clk SD) Madan Lal (JC-350390H), 04 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Nandlal Kaushalia (JC-350375N),
01 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Haravans Singh (JC-350402M), 02 Jul
2011

Nb Sub (Clk SD) Ravinder Kumar Saini (JC-350404X),
04 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Dhananjay Boro (JC-350405A), 02 Jul
2011

Nb Sub (Clk SD) Ramesh Chandra (JC-350406H),
01 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Ram Gopal (JC-350408N), 02 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Jai Prakash Rai (JC-350424L), 01 Jul
2011

Nb Sub (Clk SD) Nakka Markanda Rao (JC-350426W),
01 Jul 2011

Nb Sub (Clk SD) Lankavalasa Ananta Rao (JC-350427Y),
01 Jul 2011

To be Sub (GD)

Nb Sub (GD) Munna Lal (JC-350454H), 27 Sep 2010

Nb Sub (GD) Sadanand Sakharam Sawant (JC-350641F),
08 Nov 2010

Nb Sub (GD) Mahamud (JC-350643M), 01 Nov 2010

Nb Sub (GD) Bijay Bahadur Singh (JC-350671Y),
01 Dec 2010

Nb Sub (GD) Sudershanpal Singh (JC-350707M), 18 Jan
2011

Nb Sub (GD) Devraj Singh (JC-350706K), 26 Jan 2011

Nb Sub (GD) Shingara Singh (JC-350708P), 17 Dec 2010

Nb Sub (GD) Amrik Singh (JC-350683N), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Garud Shivaji Vishnu (JC-350784F),
07 Jan 2011

Nb Sub (GD) Rajbir (JC-350741M), 02 Feb 2011

Nb Sub (GD) Kamaljit Singh (JC-350743X), 19 Jan 2011

Nb Sub (GD) Harnek Singh (JC-350765W), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Khilap Singh (JC-350763L), 05 Jan 2011

Nb Sub (GD) Narendra Singh (JC-350843H), 01 Feb
2011

Nb Sub (GD) Ranjit Singh (JC-350720W), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Mohammad Shued (JC-350722F), 01 Feb
2011

Nb Sub (GD) Satnam Singh (JC-350797Y), 01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Lachman Singh (JC-350769M), 01 Feb
2011

Nb Sub (GD) Baban Bamaji Jankar (JC-350770F),
01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Patil Sanjay Daji (JC-350724M), 01 Feb
2011

Nb Sub (GD) Patil Shrikant Shivaji (JC-350799K),
01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Major Singh (JC-350725P), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Mubarak Ansari (JC-350870M), 01 Apr 2011
Nb Sub (GD) S Jothilingam (JC-350773P), 02 Feb 2011	Nb Sub (GD) Manjit Singh (JC-350872X), 01 Apr 2011
Nb Sub (GD) Ranbir (JC-350774X), 11 Feb 2011	Nb Sub (GD) Shingare Suresh Damodhar Rao (JC-350873A), 18 May 2011
Nb Sub (GD) Sikander Singh (JC-350723K), 02 Feb 2011	Nb Sub (GD) Akbar Ali Khan (JC-350896F), 05 May 2011
Nb Sub (GD) Fida Husain (JC-350771K), 05 Feb 2011	Nb Sub (GD) Ayyub Khan (JC-350898M), 01 May 2011
Nb Sub (GD) Rawail Singh (JC-350886X), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Yerunkar Nand Kumar Atmaram (JC-350903M), 02 May 2011
Nb Sub (GD) Gurnam Singh (JC-350772M), 03 Feb 2011	Nb Sub (GD) Muhammad Mobin (JC-350904P), 03 May 2011
Nb Sub (GD) More Prabhakar Parshu Ram (JC-350887A), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Patil Chandrakant Maruti (JC-350877W), 02 May 2011
Nb Sub (GD) Ramnath Mahor (JC-350851F), 03 Feb 2011	Nb Sub (GD) Kamlesh Kumar (JC-350905X), 02 May 2011
Nb Sub (GD) Ashok Singh (JC-350777L), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Ali Khan (JC-350906A), 01 May 2011
Nb Sub (GD) Surinder Pal Singh (JC-350778N), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Shri Chand Yadav (JC-350879F), 04 May 2011
Nb Sub (GD) Jaspal Singh (JC-350780L), 11 Feb 2011	Nb Sub (GD) Naigade Suresh Bajirao (JC-350880W), 04 May 2011
Nb Sub (GD) Birendra Prasad (JC-350813L), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Mehar Din (JC-350881Y), 08 May 2011
Nb Sub (GD) Mohd Habib (JC-350816Y), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Daniar (JC-350882F), 01 May 2011
Nb Sub (GD) Kewal Singh (JC-350817F), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Gobind Mishra (JC-350908L), 01 May 2011
Nb Sub (GD) Slammat Ulla (JC-350819M), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Balkar Singh (JC-350909N), 23 May 2011
Nb Sub (GD) Baburao Sopanrao Gavali (JC-350820F), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Sri Bhagwan Din Sharma (JC-350884M), 06 Jul 2011
Nb Sub (GD) Kuldip Singh (JC-350821K), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Gurpal Singh (JC-350911L), 11 Jul 2011
Nb Sub (GD) Sahib Singh (JC-350822M), 01 Feb 2011	Nb Sub (GD) Jasmel Singh (JC-350918P), 06 Jul 2011
Nb Sub (GD) Kadam Kumar Namdeo (JC-350825A), 01 Mar 2011	Nb Sub (GD) Kulwinder Singh (JC-350928Y), 02 Jul 2011
Nb Sub (GD) Anil Kumar (JC-350826H), 02 Mar 2011	To be Sub (SKT)
Nb Sub (GD) Swaran Singh (JC-350824X), 01 Mar 2011	Nb Sub (SKT) Kale Dattatraya Vithal (JC-349724A), 04 Apr 2011
Nb Sub (GD) Lala Singh (JC-350830L), 01 Apr 2011	Nb Sub (SKT) Anil Kumar (JC-349730N), 01 Apr 2011
Nb Sub (GD) Ganpat Prabhat More (JC-350866K), 19 Apr 2011	Nb Sub (SKT) Patil Ashok Krishna Rao (JC-349731W), 09 Apr 2011
Nb Sub (GD) Hari Shankar Singh (JC-350891H), 11 Apr 2011	To be Sub (RT)
Nb Sub (GD) Anant Bahadur Singh (JC-350868P), 01 Apr 2011	Nb Sub (RT) Anil Kumar Shukla (JC-348662Y), 09 May 2011
Nb Sub (GD) Rampal Singh (JC-350895Y), 01 Apr 2011	
Nb Sub (GD) Mohd Zafar (JC-350869X), 01 Apr 2011	

ALKA JOSHI
Under Secy

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGR BRANCH**

No. 26th, dated 15th December 2011—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion:—

To be Nb Sub SKT

Jadhav Sahebrao Anna (No. 14614412A now JC-766413W), 20th Sep 2011/01 Sep 2011*

Sathe Navanath Eknath (No. 14614406M now JC-766405X), 30th Sep 2011/01st Sep 2011*

Gautam Kumar Mandal (No. 14614384Y now JC-766416K), 01 Sep 2011

Pradyot Kumar Bera (No. 14613167W now JC-766229L), 27th Aug 2011/01 Aug 2011*

B B Saheb Damu (No. 14614371F now JC-766300N), 13th Aug 2011/01 Aug 2011*

Bhiware Subhash Vitthal (No. 14614372K now JC-766301W), 27th Aug 2011/01 Aug 2011*

Khatke Bala Saheb Bhikoba (No. 14614345A now JC-766294L), 01 Aug 2011

Adhav Balu (No. 14614376A now JC-766305M), 08 Sep 2011/01 Sep 2011*

Davang Saradar Shripati (No. 14614347L now JC-766304K), 27 Aug 2011/01 Aug 2011*

Jadhav Annaso Pandurang (No. 14614349W now JC-766302Y), 28 Aug 2011/01 Aug 2011*

Vibhakar Tiwari (No. 14614416W now JC-766414Y), 24 Sep 2011/01 Sep 2011*

Sadolkar Laxman Pundlik (No. 14614344X now JC-766411L), 26th Sep 2011/01st Sep 2011*

Udit Kumar (No. 14614554X now JC-766420M), 21 Sep 2011/01 Sep 2011*

Pakhare Madhukar Nathu (No. 14614375X now JC-766423A), 24th Sep 2011/01 Sep 2011*

Satish Chander (No. 14614249L now JC-766407H), 19 Sep 2011/01 Sep 2011*

Sajan G (No. 14614308M now JC-766409N), 19 Sep 2011/01 Sep 2011*

Santosh G (No. 14614294X now JC-766410H), 19 Sep 2011/01 Sep 2011*

Dinkar Changdeo Mulik (No. 14614407P now JC-766406A), 17 Sep 2011/01 Sep 2011*

Tapan Kumar Sahoo (No. 14614424P now JC-766419X), 19 Sep 2011/01 Sep 2011*

Asit Baban Mondal (No. 14614459L now JC-766417M), 28 Sep 2011/01 Sep 2011*

Ashok Kumar (No. 14613686Y now JC-766239P), 25 Sep 2011/01 Sep 2011*

Hari Kumar B T (No. 14614305Y now JC-766408L), 17 Sep 2011/01 Sep 2011*

Mahendra Singh Bhadauria (No. 14613985X now JC-766303F), 29 Aug 2011/01 Aug 2011*

Shyampada Maiti (No. 14600135P now JC-766401F), 30 Sep 2011/01 Sep 2011*

Pawar Namadeo Sopan (No. 14614390M now JC-766422X), 23 Sep 2011/01 Sep 2011*

To be Nb Sub Dvr (MT)

Kishan Singh (No. 14602668W now JC-766312H), 15 Aug 2011/01 Aug 2011*

Sita Ram (No. 14605450P now JC-766279W), 01st Sep 2011

Laxmi Narain (No. 14605175A now JC-766278N), 01 Sep 2011

Avadhesh Bahadur Singh (No. 14602690F now JC-766273P), 02nd Sep 2011/01st Sep 2011*

Susheel Kumar (No. 14592539A now JC-766266Y), 08 Sep 2011/01 Sep 2011*

Ranjan Kumar Singh (No. 14605167F now JC-766277L), 01 Sep 2011

To be Nb Sub Clk (SD)

Narender Singh Negi (No. 14596746K now JC-766273P), 01 Sep 2011

Satyapal Singh (No. 14597971L now JC-766428Y), 21 Sep 2011/01 Sep 2011*

Mir Saiyed Ali (No. 14597997A now JC-766430W), 20 Sep 2011/01 Sep 2011*

Puran Charan Barik (No. 14597955N now JC-766426N), 23 Sep 2011/01 Sep 2011*

To be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Jai Singh (No. 14589740A now JC-766285K), 01 Sep 2011

Banshi Lal Katore (No. 14589173H now JC-766287P), 01 Sep 2011

Amar Nath (No. 14589628N now JC-766283Y),
01 Sep 2011

Siba Prasad Rout (No. 14590234F now JC-766288X),
01 Sep 2011

*(Gtd ante dated seniority)

To be Nb Sub Master Tech AVN (I&P)

Rakesh Kumar (No. 14633318L now JC-765212L),
01 Sep 2011

Rajesh Singh (No. 14627154K now JC-766141F),
20 Jun 2011/10 Apr 2011*

To be Nb Sub Master Tech Comm

Ram Bachan Ojha (No. 14617758P now JC-764968Y),
06 Dec 2010/01 Mar 2010*

Rakesh Kumar (No. 14627666W now JC-765545X),
07 Jul 2011/01 Dec 2010*

Deepak Singh Rawat (No. 14625083P now JC-766376N),
19 Sep 2011/01 Sep 2011*

To be Nb Sub Master Tech Elect

Biju K (No. 14618813M now JC-765325N), 06 Dec
2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech B Veh

Pradeep Singh (No. 14619690X now JC-765372L),
05 Jul 2011/01 Oct 2010*

Shivjanam Kushwah (No. 14620878Y now JC-765671K),
01 Nov 2010

Nand Kishor Singh (No. 14622463H now JC-766140Y),
13 Jun 2011/01 Feb 2011*

Jagdeep Kumar (No. 14623004W now JC-766146A),
07 Jun 2011/01 May 2011*

Brajesh Kumar Maurya (No. 14623025M now JC-
766147H), 01 Jun 2011/01 May 2011*

Sanjai Kumar (No. 14623560M now JC-766149N),
20 Jun 2011/01 May 2011*

Bala Subba Reddy Marka (No. 14623407W now JC-
766150H), 13 Jun 2011/01 May 2011*

Jethoo Singh Khiria (No. 14623738X now JC-766161P),
18 Jun 2011/01 May 2011*

M Abdul Jafar (No. 14623757H now JC-766164H),
21 Jun 2011/01 May 2011*

Siddha Nath Singh (No. 14623766K now JC-766170W),
01 Aug 2011

Harvind Singh Verma (No. 14623806A now JC-
766171Y), 01 Aug 2011

Vijay Pal (No. 14623828Y now JC-766172F), 01 Aug
2011

Surjit Maiti (No. 14623844W now JC-766173K), 01 Aug
2011

Surjit Sau (No. 14623843N now JC-766178H), 01 Aug
2011

Manoj Kumar (No. 14619307N now JC-765180N),
19 Jan 2011/01 Aug 2010*

Deepak Singh Rawat (No. 14625083P now JC-
766376N), 19 Sep 2011/01 Sep 2011*

Ganga Singh (No. 14619691A now JC-765373N),
28 Jun 2011/01 Oct 2010*

Tek Chand Rana (No. 14621288M now JC-765688X),
23 Dec 2010/01 Dec 2010*

To be Nb Sub Master Tech A Veh

Gadadhar Bhuyan (No. 14621455X now JC-765773A),
04 Aug 2011/01 Jan 2011*

S S Bahadur (No. 14619017W now JC-766180A),
02 Sep 2011/01 Sep 2011*

Munji Appala Naidu (No. 14618961X now JC-766179L),
01 Sep 2011

To be Nb Sub Master Tech AVN AE

Avijit Acharya (No. 14626456K now JC-766143M),
01 Jul 2011

To be Nb Sub Master Tech Gun

S Md Wasiuddin (No. 14617137W now JC-766168Y),
27 Jun 2011/01 Jun 2011*

Dundappa Gasti (No. 14617471X now JC-766174M),
11 Jul 2011/01 Jun 2011*

Jainedra Kumar (No. 14617435M now JC-766175P),
01 Jul 2011

To be Nb Sub Master Tech Opto Elect

Ansari Mahmmd (No. 14628778H now JC-766176X),
01 Aug 2011

Satyendra Kumar (No. 14628957H now JC-766177A),
02 Aug 2011/01 Aug 2011*

Krishna Das R (No. 14628792P now JC-766169F),
04 Jun 2011/01 Jun 2011*

To be Nb Sub Master Tech GCE

Shree Ram (No. 14621399K now JC-766323P), 25 Aug 2011/01 Aug 2011*

Kali Prasad Sharma (No. 14621452K now JC-766324X), 23 Aug 2011/01 Aug 2011*

Jasbir Singh (No. 14624396F now JC-766326H), 27 Aug 2011/01 Aug 2011*

More Nitin Nana (No. 14624400Y now JC-766327L), 24 Aug 2011/01 Aug 2011*

G Kumar (No. 14624503X now JC-766330L), 24 Aug 2011/01 Aug 2011*

Bija Singh (No. 14624956H now JC-766332W), 26 Aug 2011/01 Aug 2011*

Ramela Krishna (No. 14625663K now JC-766333Y), 26 Aug 2011/01 Aug 2011*

Jeetendra Singh (No. 14624514K now JC-766331N), 27 Aug 2011/01 Aug 2011*

Arunendra Singh Chauhan (No. 14621207F now JC-766321K), 19 Aug 2011/01 Aug 2011*

*(Gtd anti dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 27th, dated 15th December 2011—The President is pleased to make the following Retirement in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against each name:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

RETIREMENT

Rank, Name, Pers Number and Date of Retirement

Brig Vipin Yadav (NR-15619Y), 31 Oct 2010

Brig Shobha Sood (NR-15843L), 31 Oct 2010

Brig MF Fabiola (NR-15322X), 31 Jan 2011

Brig D Arujah (NR-15331Y), 31 Mar 2011

Brig G Chandra (NR-15707P), 31 May 2011

Col Martha P Das (NR-16214A), 30 Jun 2010

Lt Col (S) Geeta Oberoi (NR-16835Y), 31 Aug 2010

Lt Col (S) V K Sharma (NR-16300L), 31 Oct 2010

Lt Col (S) S P Pradhan (NR-15799M), 30 Nov 2010

Lt Col (S) Jagdish Kaur (NR-17228M), 30 Nov 2010

Lt Col (S) S G Pillai (NR-16335F), 31 May 2011

Lt Col (S) R Mallika (NR-17374M), 31 May 2011

Lt Col (S) Susamma Sahu (NR-17232P), 31 Jan 2011

Lt Col (S) Rose Mary (NR-16423X), 31 Jan 2011

Lt Col (S) KP Saramma (NR-16453P), 31 Mar 2011

Lt Col (S) Saraswathi VK (NR-17079K), 31 Mar 2011

Lt Col (S) Premlata Bhola (NR-15918X), 30 Apr 2011

J K GREWAL
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 28, dated 16th December 2011—The President is pleased to retire the undermentioned officer on attaining the age of superannuation as indicated against him:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Col (TS) A K Kalia (MR-03405W), PC, 31 Jul 2007

Col (TS) SK Jaipuriyar (MR-03432A), PC, 30 Jun 2007

Col (TS) AK Srivastava (MR-04466A), PC, 30 Jun 2007

YASH PANDE
Brig
Dy. DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 29, dated 16th December 2011—In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, New Delhi, dated 14 May 2011 under heading Regular

Army, Permanent Commission, To be Subs Lt General, Army Branch is hereby amended as under:—

D.O. Subs Lt Gen

For: Maj Gen Sanjiv Chachra 01 Oct 2010
AVSM, VSM (IC-30389), Rajput

Read: Maj Gen Sanjiv Chachra 05 Oct 2010
AVSM, VSM (IC-30389) Rajput

R B ASTHANA
Dir/MS(X)

No. 30, dated 16th December 2011—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Part I Section IV published on 15 oct 2011 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub heading “Capt to be Maj” the following amendment is made:—

For: (IC-66275) Kachare Harshpal Vasudev, Inf
Read: Blank

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS-8C

No. 31, dated 19th December 2011—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be 2/Lt wef 07 Jun 97)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 100 Regular Course published in the Gazette of India dated 01 Aug 98 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under:—

For: Sachin Annarao Nimbalkar (IC-57021F), Inf

Read: Sachin Annarao Nimbalkar (IC-57021P), Inf

RAHUL SANGWAN
Lt Col
AMS-8B